



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1995]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 2019/आषाढ़ 7, 1941

No. 1995]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2019/ASHADHA 7, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2019

का.आ. 2209(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या **का.आ. 828 (अ) तारीख 12 फरवरी 2019**, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के हिसार जिले में NH 709 A के कि.मी. 32.63 से कि.मी. 52.17 (लघु सचिवालय हिसार) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"09 मार्च 2019"** को **"अमर उजाला"** और **"द ट्रिब्यून"** दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के हिसार जिले में NH 709 A के कि.मी. 32.63 से कि.मी.52.17 (लघु सचिवालय हिसार) के लिए अर्जन की जाने वाली सञ्चयना सहित अथवा सञ्चयना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

| राज्य का नाम: हरियाणा | | जिले का नाम: हिसार | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | तालुक का नाम: बास | | | | |
| | गांव का नाम: बास बादशाहपुर | | | | |
| 1 | 144// 25/1 | निजी | खेती-योग्य | 0.015176 | कर्ण सिंह पुत्र बेगचंद (144//25/१) |
| 2 | 144// 25/2 | निजी | खेती-योग्य | 0.0025293 | लखी पुत्र जागर 1/2 भाग, रामप्रसाद, राजबीर, मनदीप पुत्रान लखी 2/5 भाग श्रीमती रोशनी पत्नी लखी 1/10 भाग (144// 25/२) |
| 3 | 167// 13 | निजी | खेती-योग्य | 0.0859976 | कर्ण सिंह पुत्र बेगचंद (167// १३) |
| 4 | 167// 14/1 | निजी | खेती-योग्य | 0.1467017 | कर्ण सिंह पुत्र बेगचंद (167// 14//१) |
| 5 | 167// 14/2 | निजी | खेती-योग्य | 0.1315257 | श्री मति विधवा , श्री मति किताबो और पतासो पुत्री देशराज (167// 14// २) |
| 6 | 167// 15 | निजी | खेती-योग्य | 0.0101174 | श्री मति विधवा , श्री मति किताबो और पतासो पुत्री देशराज (167// १५) |
| 7 | 167// 17 | निजी | खेती-योग्य | 0.1669365 | मांगेराम पुत्र नाथू 877/4386 भाग , सुरेश ,शमशेर पुत्रान मांगेराम पुत्र नाथू 877/4386 भाग , राजेश, विजेंदर, संजय पुत्रान मांगेराम पुत्र नाथू 1316/2193 भाग (167// १७) |

| | | | | | |
|----|------------|------|------------|-----------|--|
| 8 | 167// 18/1 | निजी | खेती-योग्य | 0.2149939 | हरि सिंह पुत्र बेगचंद (167//18/१) |
| 9 | 167// 18/2 | निजी | खेती-योग्य | 0.007588 | दिलबाग पुत्र हरिराम 1/4 भाग , कर्मवीर सिंह , कुलवीर पुत्रान राजमल पुत्र बगचन्द 1/6 भाग , धर्मवीर , उदयवीर , दलजीत , रमेश पुत्रान हरिसिंह पुत्र बेगचंद 1/4 भाग करणसिंह पुत्र बेगचंद पुत्र दतु 1/4 भाग , श्री मति विद्या देवी विधवा अजय कुमार , मनोज कुमार पुत्रान सतवीर पुत्र राजमल 1/12 भाग (167// १८/२) |
| 10 | 167// 23 | निजी | खेती-योग्य | 0.0657628 | दिलबाग पुत्र हरिराम (167// २३) |
| 11 | 167// 24 | निजी | खेती-योग्य | 0.0708215 | मांगेराम पुत्र नाथू 877/4386 भाग , सुरेश , शमशेर पुत्रान मांगेराम पुत्र नाथू 877/4386 भाग , राजेश , विजेन्द्र , संजय पुत्रान मांगेराम पुत्र नाथू 1316/2193 भाग (167// २४) |
| 12 | 167// 4 | निजी | खेती-बाड़ी | 0.111291 | ओमप्रकाश , सुभाष पुत्रान फतेह सिंह 2/3 भाग , विजय , परमजीत पुत्रान ओमप्रकाश पुत्र फतेह सिंह 1/6 भाग , रजत पुत्र सुभाष पुत्र फतेह सिंह 1/6 भाग (167// ४) |
| 13 | 167// 5 | निजी | खेती-योग्य | 0.0758802 | लखी पुत्र जागर 1/2 भाग , रामप्रसाद, राजवीर , मनदीप पुत्र लखी 2/5 भाग , श्रीमती रोशनी पत्नी लखी पुत्र जागर 1/10 भाग (167// ५) |
| 14 | 167// 6/1 | निजी | खेती-योग्य | 0.0050587 | लखी पुत्र जागर पुत्र सुल्तान 1/4 भाग श्रीमती धनो , सरतो पत्नी श्रीमती। भगवानी विधवा सेठा 1/4 भाग , श्रीमती सुखदेई वाधवा, श्रीमती किताबो , पातसो पुत्री देशराज पुत्र सेठा १/४ भाग , भरपई पत्नी लक्की पुत्र जागर १/४ भाग (167// २ 6/१) |
| 15 | 167// 6/2 | निजी | खेती-योग्य | 0.0657628 | श्री मति विधवा , श्री मति किताबो और पतासो पुत्री देसराज (167// 6/२) |
| 16 | 167// 7 | निजी | खेती-योग्य | 0.2276406 | ओमप्रकाश , सुभाष पुत्रान फतेह सिंह 2/3 भाग , विजय , परमजीत पुत्रान ओमप्रकाश |

| | | | | | |
|----|---------|------|------------|-----------|---|
| | | | | | पुत्र फ़तेह सिंह 1/6 भाग , रजत पुत्र सुभाष पुत्र फ़तेह सिंह 1/6 भाग (167// ७) |
| 17 | 193// 2 | निजी | खेती-योग्य | 0.0303521 | छाजू पुत्र भगवान (193// २) |
| 18 | 193// 3 | निजी | खेती-योग्य | 0.0657628 | मांगेराम पुत्र नाथू 877/4386 भाग , सुरेश , शमशेर पुत्रान मांगेराम पुत्र नाथू 877/4386 भाग , राजेश , विजेंदर , संजय पुत्रान मांगेराम पुत्र नाथू 1316/2193 भाग (193// ३) |
| | | | कुल | 1.4998986 | |

[फा.सं. NHAI/PIU-Rohtak/Bhiwani-Mundhal-Jind/LAND/18-19/3A1/3D1]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th June, 2019

S.O. 2209(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. No. 828 (E) dated 12 February, 2019**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH 709 A on the stretch of land from Km. 32.63 to Km. 52.17 (Mini Secretariat Hisar) in the district of HISAR in the state of HARYANA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Amar Ujala*” and “*The Tribune*” both dated **09 March 2019**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 709 A in the stretch of land from Km. 32.63 to Km. 52.17 NH 709 A (Mini Secretariat Hisar) in the district of HISAR in the state of HARYANA

| State: HARYANA District: HISAR | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|-----------------|---|
| Sr. No. | Survey Number | Type of Land | Nature of Land | Area in Hectare | Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Taluk: Bass | | | | |
| | Village: Bass Badshahpur | | | | |
| 1 | 144// 25/1 | Private | Agricultural | 0.015176 | Karan Singh s/o Begchand 144// 25/1 |
| 2 | 144// 25/2 | Private | Agricultural | 0.0025293 | Lakhi s/o Jagar 1/2 share , Ramparsad, Rajbir , Mandeep Ss/o Lakhi 2/5 share Smt Roshni w/o Lakhi 1/10 share 144// 25/2 |
| 3 | 167// 13 | Private | Agricultural | 0.0859976 | Karan Singh s/o Begchand 167// 13 |
| 4 | 167// 14/1 | Private | Agricultural | 0.1467017 | Karan Singh s/o Begchand 167// 14// 1 |
| 5 | 167// 14/2 | Private | Agricultural | 0.1315257 | Shri Mati wd/o , Shri Mati Kitabo and Pataso D/o Desraj 167// 14// 2 |
| 6 | 167// 15 | Private | Agricultural | 0.0101174 | Shri Mati wd/o , Shri Mati Kitabo and Pataso D/o Desraj 167// 15 |
| 7 | 167// 17 | Private | Agricultural | 0.1669365 | Mangeram s/o Nathu 877/4386 share , Suresh,Shamsher Ss/o Mangeram s/o Nathu 877/4386 share , Rajesh, Vijender , Sanjay Ss/o Mangeram s/o Nathu 1316/2193 share 167// 17 |
| 8 | 167// 18/1 | Private | Agricultural | 0.2149939 | Hari Singh s/p Begchand 167//18/1 |
| 9 | 167// 18/2 | Private | Agricultural | 0.007588 | Dilbag s/o Hariram 1/4 Share , Karambir Singh , Kulbir Ss/o Rajmal s/o Begchand 1/6 Share, Dharambir , Udaybir, Daljeet , Ramesh Ss/o Harisingh s/o Begchand 1/4 share , Karnsingh s/o Begchand s/o Datu 1/4 share , Shri Mati Vidya Devi wd/o Ajay Kumar, Manoj Kumar Ss/o Satbir s/o Rajmal 1/12 share 167// 18/2 |
| 10 | 167// 23 | Private | Agricultural | 0.0657628 | Dilbag s/o Hariram 167// 23 |
| 11 | 167// 24 | Private | Agricultural | 0.0708215 | Mangeram s/o nathu 877/4386 share , Suresh,Shamsher Ss/o Mangeram s/o Nathu 877/4386 share , Rajesh, Vijender , Sanjay Ss/o Mangeram s/o Nathu 1316/2193 share 167// 24 |
| 12 | 167// 4 | Private | Agricultural | 0.111291 | Omparkash , Subhash Ss/o Fateh Singh 2/3 share , Vijay , Paramjeet Ss/o Omparkash s/o Fateh Singh 1/6 share , Rajat s/o Subhash s/o Fateh Singh 1/6 share 167// 4 |
| 13 | 167// 5 | Private | Agricultural | 0.0758802 | Lakhi s/o Jagar 1/2 share , Ramparsad, Rajbir |

| | | | | | |
|----|-----------|---------|--------------|------------------|---|
| | | | | | , Mandeep s/o Lakhi 2/5 Share , Smt Roshni w/o Lakhi s/o Jagar 1/10 share 167//5 |
| 14 | 167// 6/1 | Private | Agricultural | 0.0050587 | Lakhi s/o jagar s/o sultan 1/4 share Smt. Dhanno , Sarto d/o Smt. Bhagwani wd/o setha 1/4 share , Smt. Sukhdeae wd/o , Smt. Kitabo , Pataso d/o Desraj s/o setha 1/4 share , Bharpai w/o lakhi s/o Jagar 1/4 share 167// 6/1 |
| 15 | 167// 6/2 | Private | Agricultural | 0.0657628 | Shri Mati wd/o , Shri Mati Kitabo and Pataso D/o Desraj 167// 6/2 |
| 16 | 167// 7 | Private | Agricultural | 0.2276406 | Omparkash , Subhash Ss/o Fateh Singh 2/3 Part , Vijay , Paramjeet Ss/o Omparkash s/o Fateh Singh 1/6 part , Rajat s/o Subhash s/o Fateh Singh 1/6 part 167// 7 |
| 17 | 193// 2 | Private | Agricultural | 0.0303521 | Chaju s/o Bhagwana 193// 2 |
| 18 | 193// 3 | Private | Agricultural | 0.0657628 | Mangeram s/o Nathu 877/4386 share , Suresh,Shamsher Ss/o Mangeram s/o Nathu 877/4386 share , Rajesh, Vijender , Sanjay Ss/o Mangeram s/o Nathu 1316/2193 share 193// 3 |
| | | | TOTAL | 1.4998986 | |

[F. No. NHAI/PIU-Rohtak/Bhiwani-Mundhal-Jind/LAND/18-19/3A1/3D1]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.